

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1— समस्त विभागाध्यक्ष तथा  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सेवाये) अनुभाग—1

लखनऊ: दिनांक ३० दिसम्बर, 2011

**विषयः—** राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावा प्रपत्रों का  
संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—एस0ई0—401/दस—11—बीमा—8/11, दिनांक 13 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—एस0ई0—1428/दस—11—बीमा—14/08, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 द्वारा लागू व्यवस्था के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या—31 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:—

(1) जी0आईएस0 प्रपत्र संख्या—31 के स्तम्भ—2“ पदनाम के नीचे निम्न स्तम्भों का समावेश किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अमुक दावा राशि राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सरकारी सेवक का है और समूह 'ख' एवं समूह 'क' के पद पर पदोन्नति का दिनांक क्या है, जिससे कोषागार स्तर पर तथा बीमा निदेशालय स्तर पर दावों की कम्प्यूटर में फीडिंग के समय यह सुनिश्चित हो सके कि अमुक दावे का निस्तारण वास्तव में बीमा निदेशालय अथवा कोषागार के स्तर पर किया जाना है।

#### स्तम्भ—2

- (अ) राजपत्रित / अराजपत्रित.....
- (ब) समूह 'ख' के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक.....
- (स) समूह 'क' के पद पर पदोन्नति का दिनांक.....

(2) प्रपत्र संख्या—31 के नीचे आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में प्रमाण—पत्र संख्या—7 में यह अंकित किया जाय कि :—

“(अमुक).....का प्रकरण समूह 'क' के अधिकारी का होने के फलस्वरूप यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण पूर्व में कोषागार स्तर पर नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही भविष्य में कोषागार को प्रस्तुत किया जायेगा”।

-----2/-

mp

(3) कोषागार स्तर पर निस्तारित होने वाले दावों में सेवा पुस्तिका के आधार पर इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि उनके स्तर पर निस्तारित होने वाला समूह 'क' श्रेणी के अधिकारी का नहीं है।

2— उपरोक्तानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2012 को अथवा उसके उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले दावे इस शासनादेश के साथ संलग्न निर्धारित संशोधित जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या-31 में ही स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,

संलग्नक: जी0आई0एस0 प्रपत्र सं0-31(संशोधित)

( अजय अग्रवाल )  
विशेष सचिव।

संख्या-एस0ई0-1693(1) / दस-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3— श्री राज्यपाल का सचिवालय।
- 4— विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय।
- 5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6— निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।
- 7— भाषा (प्रकाशन) अनुभाग।
- 8— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, उ0प्र0, 6वाँ तल, योजना भवन लखनऊ।

आज्ञा से  
*रामेश*  
( हरीश चन्द्र मित्र )  
उप सचिव।

सेवा में,

बीमा निदेशालय/कोषागार के प्रयोगार्थ दावा संख्या-
---

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति/सेवा से अन्यथा पृथक्/मृत अधिकारी/कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ :-

1. (अ) अधिकारी/कर्मचारी का नाम :- 1. (हिन्दी में) : .....  
 2. (अंग्रेजी में) : .....  
 (कैपिटल लेटर में)  
 (ब) मोबाइल सं0 या दूरभाष सं0 एस0टी0डी0 कोड सहित : .....  
 (स) पिता/पति का नाम :- : .....
2. (अ) पद नाम :- : .....  
 (ब) राजपत्रित/अराजपत्रित :- : .....  
 (स) राजपत्रित की स्थिति में :-  
 (1) समूह 'ख' के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक :- : .....  
 (2) समूह 'क' के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक :- : .....
3. (क) जी0पी0एफ0खाता संख्या (यदि हो) : .....  
 (ख) एन0पी0एस0 खाता संख्या (यदि हो) : .....  
 (ग) जी0पी0एफ/एन0पी0एस0 के अभाव में (NEW) अंकित किया जाय : .....
4. (अ) योजना से पृथक् होने के समय का वेतन बैण्ड :- : .....  
 (ब) योजना से पृथक् होने के समय का ग्रेड पे:- : .....  
 (स) यदि ग्रेड पे रु0 6600 प्राप्त हुआ हो तो उसका दिनांक :- : .....  
 (द) समूह 'ख' के वेतनमान में आने का दिनांक:- : .....  
 (थ) समूह 'क' के वेतनमान में आने का दिनांक:- : .....
5. (क) विभाग :- : .....  
 (ख) विभागाध्यक्ष :- : .....
6. जन्मतिथि :-  
 (अ) अंको में :- : .....  
 (ब) शब्दों में :- : .....
7. (अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक:- : .....  
 (ब) योजना में प्रवेश का दिनांक :- : .....
8. (अ) रु0 05 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (ब) रु0 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (स) रु0 15 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (त) रु0 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (थ) रु0 30 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (द) रु0 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

- (घ) रु० 60 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (न) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (प) रु० 120 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
9. 01 दिसम्बर,2008 की स्थिति के अनुसार  
 (अ) ग्रेड पे 2800 तक रु० 100 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (ब) ग्रेड पे 2801 से 5400 तक रु० 200 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक  
 (स) ग्रेड पे 5400 से अधिक रु० 400 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
10. सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक होने की तिथि :- : .....  
 (यदि लागू न हो तो (X) करें)
11. सेवारत अवस्था में मृत्यु की तिथि :- : .....  
 (यदि लागू न हो तो (X) करें)
12. सेवारत/सेवा से अन्यथा पृथक होने का कारण.....
13. अधिकारी/कर्मचारी विवाहित था अथवा अविवाहित:- : .....
14. यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विवाह किया गया हो तो निम्न विवरण दिया जाय एवं यदि दूसरा विवाह अनुमति से किया गया है तब अनुमति सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। (यदि लागू न हो तो (X) करें)

	नाम	विवाह की तिथि	उनसे उत्पन्न संतानों के नाम	जन्म तिथि
पहली पत्नी				
दूसरी पत्नी				

15. यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके सेवाकाल में सामूहिक बीमा योजना संबंधी नामांकन पत्र भरा गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें भी उपलब्ध करायें :-

क्रम संख्या	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों* के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/जन्म तिथि	प्रत्येक को देय अंश	संरक्षक का नाम (अवयस्क होने की दशा में)	नामितों में से किसी की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु का दिनोंक भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6	7

\*यदि नामितों में कोई अवयस्क हो और नामांकन प्रपत्र में संरक्षक का नाम अंकित न हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा उसके नियुक्त किये गये संरक्षक के संबंध में जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

16. यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामूहिक बीमा योजना संबंधी नामांकन पत्र न भरा गया हो तो अधिकारी की मृत्यु के दिनोंके को शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनोंक 10 जनवरी, 1986 के प्रस्तर-3 (ग) में दिये गये क्रमानुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट करें :-

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु/जन्म तिथि	विवाहित अथवा अविवाहित/विवाह की तिथि	यदि अधिकारी की मृत्यु के उपरांत परिवार में से किसी की मृत्यु हो गयी हो तो उसकी मृत्यु तिथि भी अंकित करें
1	2	3	4	5	6

नोट :- संख्या (1) शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनोंक 10 जनवरी, 1986 के अनुसार परिवार में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे :-

संख्या (2) स्तम्भ-15 के कालम-5 में केवल पुत्रियों के मामले में यह स्पष्ट करें कि विवाहित हैं अथवा अविवाहित तथा विवाहित होने की स्थिति में पुत्री के विवाह की तिथि भी स्तम्भ-15 में ही दर्शायें।

1- पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)

2- पुत्रगण

3- अविवाहित तथा विधवा पुत्रियों (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियों सहित)

4- भाई (18 वर्ष आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई/बहनों सहित)

5- पिता तथा माता

6- विवाहिता पुत्रियों (सौतेली पुत्रियों सहित) तथा

7- पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियों।

उपर्युक्त शासनादेश का प्रस्तर-3 (ग) निम्न प्रकार है :-

3(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए :-

1- अधिकारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो

2- अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियों

3- वयस्क पुत्र

4- माता व पिता

5- अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें

6- विवाहित पुत्रियों तथा

7- पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियों।

17. यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार में स्तम्भ संख्या-16 में दर्शाया गया कोई सदस्य न हो और उसके द्वारा नामांकन भी न भरा गया हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का विवरण देते हुए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि वसूलने का उल्लेख किया गया हो:-

क्रम संख्या	घोषित उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम	आयु/जन्म तिथि	देय अंश
1	2	3	4

18. लाभार्थी का निर्धारण :-

(कृपया जैसी स्थिति हो उसके सम्मुख (✓) अंकित करें और जो लागू न हो उसे (X) कर दें)

(अ) सामूहिक बीमा योजना संबंधी भरे गये नामांकन प्रपत्र के अनुसार किया गया (स्तम्भ-15 के अनुसार).....

(ब) शासनादेश संख्या-बीमा-56/दस-86-36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 के प्रस्तर-3 (ग) में दिये गये व्यवस्थानुसार किया गया है (स्तम्भ-16 के अनुसार).....

(स) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार किया गया है (स्तम्भ-17 के अनुसार).....

19. लाभार्थी/लाभार्थियों का नाम :- : .....

20. मृतक से सम्बन्ध :- : .....

21. अवयस्क की स्थिति में उसके नियुक्त संरक्षक का नाम:- : .....

22. राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण:-

(यदि एक से अधिक लाभार्थी हो तो सभी के बैंक खाते के विवरण अलग-अलग दिये जायें)

(क) बैंक खाता संख्या:- : .....

(ख) माइकर कोड संख्या:- : .....

(ग) बैंक का नाम :- : .....

(घ) शाखा :- : .....

(ङ) जिला :- : .....

23. अधिकारी/कर्मचारी/लाभग्रही के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (पिन कोड सहित) :- .....

1- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी अल्पकालीन रिक्तियों अथवा सीजनल कार्य के लिए नियुक्त नहीं था।

2- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी से सामूहिक बीमा योजना संबंधी कटौती योजना में प्रवेश की तिथि से निकलने की तिथि तक नियमित रूप से एवं निर्धारित दरों के अनुसार की गयी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र/नामांकन/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (जैसी स्थिति हो) की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। (यह प्रमाण पत्र मृत्यु के मामलों में ही लागू होगा)

4- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी के दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है और दिनांक 1.3.1994 से पूर्व तथा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकारी/उसके लाभार्थी को देय सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5- प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी की जन्मतिथि का सत्यापन संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है।

6- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....का प्रकरण समूह 'क' के अधिकारी होने के फलस्वरूप प्रकरण पूर्व में कोषागार स्तर पर भुगतान हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही भविष्य में कोषागार को प्रस्तुत किया जायेगा। (यह प्रमाण-पत्र 01मार्च,2011 के उपरान्त उत्पन्न समूह 'क' श्रेणी के दावे बीमा निदेशालय को भुगतान हेतु अग्रसरित किये जाने पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा दिया जाना आवश्यक है।)

7- मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और उक्त विवरणों के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ।

दिनांक :

स्थान :

बीमा निदेशालय/कोषागारों के प्रयोगार्थ

चेक सं.....दिनांक.....

घनराशि.....द्वारा

भुगतान स्वीकृत।

सक्षम अधिकारी।

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी  
के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम .....

कार्यालय की मोहर .....

डी.डी.ओ. कोड संख्या.....

ट्रेजरी कोड संख्या.....

\*2. प्रतिहस्ताक्षर:-

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के संबंधित विभाग  
के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम.....

कार्यालय की मोहर.....

(\* समूह 'क' श्रेणी के अधिकारियों हेतु लागू)

**नोट :-** रु0 5400 से अधिक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले समूह 'क' श्रेणी के अधिकारियों के दावा प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नाम सहित समूहर हस्ताक्षर किये जायेंगे। कार्यालयाध्यक्ष स्तर के नीचे के अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तथा कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के दावे विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर एवं विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के सामूहिक बीमा संबंधी दावे शासन के संबंधित विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित किया जाना होगा। समूह 'क' श्रेणी से इतर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों पर यह व्यवस्था पर लागू नहीं होगी।

(दावेदार से घनराशि प्राप्त करने से संबंधित रिसीट)

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता)

महोदय,

मैंने शासन की सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये दावे के सम्बन्ध में रु0.....  
(शब्दों में).....की घनराशि का भुगतान चेक संख्या.....दिनांक  
.....द्वारा सधन्यवाद पाया।

दिनांक:

भवदीय,

(कर्मचारी/लाभग्रही के हस्ताक्षर)

नाम.....

पूर्ण पता.....